



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4831]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2018/अग्राहायण 16, 1940

No. 4831]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2018/AGRAHAYANA 16, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2018

सं. 97/2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 6060(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतत् द्वारा, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 62/1994- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, जिसे का.आ. 829(अ), 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघराज्य क्षेत्र से संबंधित क्रम सं. 1 के समक्ष कॉलम (3) और (4), में, कॉलम (3) के मद (2) के पश्चात और कॉलम (4) की संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(3) पोर्ट मीडो	आयातित माल की उतराई और निर्यातित माल या
		ऐसे माल की किसी अन्य श्रेणी की लदाई।	

[फा. सं. 574/01/2017-एलसी]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना को, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 62/1994- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के रूप में का.आ. 829(अ) दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 52/2018-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 13 जून, 2018, का.आ. 2417(अ) दिनांक 13 जून, 2018 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2018

No. 97/2018-Customs (N.T.)

S.O. 6060 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of the section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 62/1994 –Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O.829 (E), dated the 21st November, 1994, namely:-

In the said notification in the TABLE, against serial number 1 relating to the Union territory of Andaman and Nicobar Islands, in column (3) and (4), after item (2) in column (3) and the entries relating thereto in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(3) Port Meadow	Unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.”.

[F.No. 574/01/2017-LC]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No.62/1994-Customs(N.T.), dated the 21st November, 1994, vide number S.O. 829(E), dated the 21st November, 1994 and last amended vide notification No. 52/2018-Customs (N.T.), dated the 13th June, 2018, vide number S.O. 2417(E), dated the 13th June, 2018.